

नवजोत सिंह सिद्धू फिर फंस विवाद में गए हैं



चंडीगढ़ । अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर आलोचनाओं के शिकार रहे पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर विवाद में फंस गए हैं। दरअसल, पाकिस्तान दौरे से लौटकर सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को तोहफे में एक चिड़िया दी जिसे लेकर उनके खिलाफ शिकायत हो गई है। वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो(WCCB) के वॉलंटियर संदीप जैन ने सिद्धू के खिलाफ जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की है।

बता दें कि पाकिस्तान से सिद्धू एक स्टफ्ड ब्लैक पैट्रिज (काला तीतर) लेकर आए थे। देश लौटने पर सीएम से मुलाकात करने पहुंचे सिद्धू ने यह चिड़िया तोहफे में उन्हें दे दी। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में किसी पत्रकार ने यह चिड़िया उन्हें करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह में दी थी। वहीं, सीएम ने इस बारे में सवाल करने पर कहा था कि वह वन विभाग से इस बार में पता करेंगे कि क्या यह चिड़िया रखी जा सकती है या नहीं।

सीएम के नजदीकी कांग्रेसी नेता बताते हैं कि चुनावों के वक्त प्रचार के दौरान अमरिंदर के फोन की रिंगटोन इसी चिड़िया के चहचहाने की थी। उधर, संदीप जैन ने इसे वाइल्डलाइफ प्रटेक्शन ऐक्ट का उल्लंघन बताते हुए शिकायत की है। उन्होंने बताया है, 'मैंने WCCB में शिकायत करे हुए इस बारे में जांच की मांग की है कि पाकिस्तान से ब्लैक पैट्रिज को लाकर पंजाब में इतने समय तक कैसे रखा गया। किसी जानवर या पक्षी या उसके शरीर के हिस्से को बिना इजाजत के रखना गैर-कानूनी है।'

साभार- टाइम्स ऑफ इंडिया से